



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

3 वैशाख, 1940 (श०)

संख्या- 437 राँची, सोमवार, 23 अप्रैल, 2018 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

आदेश

8 मार्च, 2018

संख्या:-5/आरोप-1-127/2016 का.-1713-- श्री रजनीश कुमार, झा०प्र०से०, (द्वितीय बैच, गृह जिला-गोड्डा), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुडू, लोहरदगा के विरुद्ध प्रधान सचिव, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-सं०को०-143(गो०), दिनांक 3 अक्टूबर, 2016 द्वारा 8 वर्ष की एक घरेलू कामगार को अपने राँची स्थित आवास में नियोजित करने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं ।

2. उक्त आरोपों हेतु विभागीय आदेश सं०-8852, दिनांक 14 अक्टूबर, 2016 द्वारा श्री कुमार को निलंबित किया गया तथा श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-2606,

दिनांक 27 दिसम्बर, 2016 द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध उक्त आरोपों को प्रपत्र-‘क’ में गठित कर उपलब्ध कराया गया ।

3. उक्त प्रपत्र- ‘क’ पर विभागीय पत्रांक-380, दिनांक 13 जनवरी, 2017 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की माँग की गयी, जिसके आलोक में श्री कुमार के पत्र, दिनांक 30 जनवरी, 2017 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया । विभागीय पत्रांक-3247, दिनांक 20 मार्च, 2017 द्वारा श्री कुमार के स्पष्टीकरण पर श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग से अपना मंतव्य अनुशंसा सहित उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया, जिसके अनुपालन में श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के पत्रांक-1151, दिनांक 16 जून, 2017 से अपना मंतव्य उपलब्ध कराया गया ।

4. विभाग द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत, विभागीय संकल्प सं०-8373, दिनांक 25 जुलाई, 2017 द्वारा श्री कुमार को निलंबन से मुक्त करते हुए उक्त आरोप से मुक्त किया गया ।

5. उपायुक्त, हजारीबाग के पत्रांक-70/स्था०, दिनांक 18 जनवरी, 2018, आयुक्त के सचिव, द०छो० प्रमंडल, राँची के पत्रांक-3165/स्था०, दिनांक 1 दिसम्बर, 2017 द्वारा श्री कुमार के निलंबन अवधि का सेवा विनियमन के संबंध में आवेदन/प्रतिवेदन प्राप्त हुआ ।

6. विभाग स्तर पर समीक्षोपरांत श्री कुमार के निलंबन अवधि दिनांक 21 अक्टूबर, 2016 से 25 जुलाई, 2017 तक को कर्तव्य अवधि के रूप में विनियमित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सूर्य प्रकाश,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
